

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 842]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 16 दिसम्बर 2019 — अग्रहायण 25, शक 1941

गृह विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 16 दिसम्बर 2019

अधिसूचना

क्रमांक एफ 07-2/2019/जनगणना/गृह-दो.— जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) की धारा 4 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों को, कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के भीतर, जनगणना 2021 के लिए, कॉलम (3) में पदनामित जनगणना अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है:—

अनुसूची

स. क्र.	प्राधिकारी	पदनाम	क्षेत्राधिकार
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	संभागायुक्त	संभागीय जनगणना अधिकारी	उनके संबंधित राजस्व संभाग की सीमाओं के भीतर
2.	जिला कलेक्टर	प्रमुख जनगणना अधिकारी	उनके संबंधित राजस्व जिले की सीमाओं के भीतर
3.	कलेक्टर द्वारा नामांकित अपर कलेक्टर / संयुक्त कलेक्टर / उप कलेक्टर	जिला जनगणना अधिकारी	उनके संबंधित राजस्व जिले की सीमाओं के भीतर
4.	जिला योजना एवं सांख्यिकीय अधिकारी	अतिरिक्त जिला जनगणना अधिकारी	उनके संबंधित राजस्व जिले की सीमाओं के भीतर
5.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	अनुविभागीय जनगणना अधिकारी	उनके संबंधित क्षेत्राधिकार की सीमाओं के भीतर
6.	तहसीलदार	चार्ज जनगणना अधिकारी	उनके संबंधित क्षेत्राधिकार की सीमाओं के भीतर
7.	अतिरिक्त तहसीलदार/ नायब तहसीलदार	अतिरिक्त चार्ज जनगणना अधिकारी	उनके संबंधित क्षेत्राधिकार की सीमाओं के भीतर
8.	(अ) प्रशासक, नगरपालिक निगम (अधिकमण किये गये नगरपालिक निगमों में) या (ब) आयुक्त, नगरपालिक निगम (निर्वाचित नगरपालिक निगमों में)	प्रमुख जनगणना अधिकारी	उनके संबंधित क्षेत्राधिकार एवं बाह्य विकास क्षेत्र (यदि कोई हो) की सीमाओं के भीतर
		प्रमुख जनगणना अधिकारी	उनके संबंधित क्षेत्राधिकार एवं बाह्य विकास क्षेत्र (यदि कोई हो) की सीमाओं के भीतर

9.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण	विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण जनगणना अधिकारी	उनके संबंधित क्षेत्राधिकार की सीमाओं के भीतर
10.	प्रशासक/आयुक्त नगरपालिका निगम द्वारा नामांकित अधिकारी	नगर जनगणना अधिकारी	उनके संबंधित क्षेत्राधिकार एवं बाह्य विकास क्षेत्र (यदि कोई हो) की सीमाओं के भीतर
11.	मुख्य नगरपालिका अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी	नगर चार्ज जनगणना अधिकारी	उनके संबंधित क्षेत्राधिकार एवं बाह्य विकास क्षेत्र (यदि कोई हो) की सीमाओं के भीतर
12.	जोन कमिश्नर, नगरपालिका निगम में (जहाँ भी लागू हो)	जोन चार्ज जनगणना अधिकारी	उनके संबंधित क्षेत्राधिकार एवं बाह्य विकास क्षेत्र (यदि कोई हो) की सीमाओं के भीतर
13.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विशेष क्षेत्र में	विशेष क्षेत्र चार्ज जनगणना अधिकारी	उनके संबंधित क्षेत्राधिकार एवं बाह्य विकास क्षेत्र (यदि कोई हो) की सीमाओं के भीतर

उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत राज्य सरकार, एतद्वारा, उपरोक्त यथा दर्शित अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों को, कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट क्षेत्राधिकार के भीतर, उक्त धारा की उप-धारा (2) द्वारा उसको प्रदत्त जनगणना अधिकारियों को नियुक्त करने की शक्तियों को प्रत्यायोजित करती है।

उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत राज्य सरकार, उपरोक्त यथा दर्शित अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों को, कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट क्षेत्राधिकार के भीतर, जनगणना अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में लिखित में घोषणा पत्र प्रसारित करने के लिए, एतद्वारा, प्राधिकृत करती है।

जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) की धारा 11 के अनुसार, कोई भी जनगणना अधिकारी अथवा ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो जनगणना का कार्य करने में सहायता करने हेतु विधिवत् अपेक्षित हो एवं जो उक्त अधिनियम के अन्तर्गत अथवा इसके अन्तर्गत निर्मित नियम के अन्तर्गत उसको आवंटित किसी कार्य के निर्वहन के लिये, मना करता हो अथवा ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो ऐसे कार्य के निर्वहन में किसी अन्य व्यक्ति को बाधा उत्पन्न करता हो अथवा रोकता हो, को एक हजार रुपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा तथा दोषसिद्ध होने पर, कारावास से, जो कि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 16th December 2019

NOTIFICATION

No.F 07-2/2019/Census/Home-2.— In exercise of the power conferred by sub-section (2) of Section 4 of the Census Act, 1948 (No. 37 of 1948) and in supersession of all previous Notifications issued in this regards, the State Government, hereby, appoints the authorities specified in column (2) of the Schedule below as Census Officers designated in column (3) for the Census 2021 within their respective jurisdiction as specified in column (4) thereof:-

SCHEDULE

S.No.	Authorities	Designation	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Divisional Commissioner	Divisional Census Officers	Within the limits of their respective Revenue Division
2.	Collector of the District	Principal Census Officer	Within the limits of their respective Revenue District
3.	Additional Collector/Joint Collector/Deputy Collector nominated by the Collector	District Census Officer	Within the limits of their respective Revenue District
4.	District Planning and Statistical Officer	Additional District Census Officer	Within the limits of their respective Revenue District
5.	Sub-Divisional Officer (Revenue)	Sub -Divisional Census Officer	Within the limits of their respective Jurisdictions

6.	Tahsildar	Charge Census Officer	Within the limits of their respective Jurisdictions
7.	Additional Tahsildar/ Naib Tahsildar	Additional Charge Census Officer	Within the limits of their respective Jurisdictions
8.	(A) Administrator, Municipal Corporations (in the superseded Municipal Corporations) OR	Principal Census Officer	Within the limits of their respective Jurisdictions plus out-growth areas (if any)
	(B) Commissioner, Municipal Corporations (in elected Municipal Corporations)	Principal Census Officer	Within the limits of their respective Jurisdictions plus out-growth areas (if any)
9.	Chief Executive Officer, Special Area Development Authority	Special Area Authority Development Census Officer	Within the limits of their respective Jurisdictions
10.	Officer nominated by Administrator /Commissioner in Municipal Corporation	City Census Officer	Within the limits of their respective Jurisdictions plus out-growth areas (if any)
11.	Chief Municipal Officer/ Chief Executive Officer	Town Charge Census Officer	Within the limits of their respective Jurisdictions plus out-growth areas (if any)
12.	Zone Commissioner in Municipal Corporation (Wherever applicable)	Zone Charge Census Officer	Within the limits of their respective jurisdictions (with out-growth areas, if any)
13.	Chief Executive Officer in Special Areas	Special area Charge Officer	Within the limits of their respective Special Areas

The State Government, hereby, under sub-section (4) of Section 4 of the said Act, delegates the powers of appointing Census Officer conferred upon it by sub-section (2) of the said Section to the authorities specified in column (2) of the Schedule as shown above within the areas specified in column (4) thereof.

The State Government, hereby, under sub-section (3) of Section 4 of the said Act, authorizes the authorities specified in column (2) of the Schedule as shown above to sign declarations regarding the appointment of Census Officers within the areas specified in column (4) thereof.

As per the provisions of Section 11 of the Census Act, 1948 (No. 37 of 1948) any Census Officer or any person lawfully required to give assistance towards the taking of census and who refuses to perform any duty allotted to him/her under this Act or any rule made thereunder or any person who hinders or obstructs another person in performing any such duty, shall be punishable with fine up to one thousand rupees and in case of a conviction shall also be punishable with imprisonment which may extend up to three years.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MUKUND GAJBHIYE, Deputy Secretary.